



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 991 राँची, मंगलवार,

23 अक्टूबर, 2018 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

23 अक्टूबर, 2018

**संख्या-5/आरोप-1-37/2017-2576 (HRMS)--** चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री वैद्यनाथ उराँव झा०प्र०से० तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छतरपुर, पलामू सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतगावा, कोडरमा के विरुद्ध छतरपुर प्रखण्ड में डोभा निर्माण में अनियमितता बरते जाने तथा जे०सी०बी० मशीन का उपयोग किये जाने का आरोप जैसा कि उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 647/मनरेगा, दिनांक 30 जुलाई, 2016 से प्राप्त प्रपत्र 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री उराँव के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3 तदनुसार एतद् द्वारा श्री उराँव को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

- 4 श्री उराँव द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच०ए०सी० गोलचक्कर धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।
- 5 श्री उराँव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
- 6 विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BAIDYANATH URAON 20080400122	श्री वैद्यनाथ उराँव तत्कालीन झा०प्र०से० के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

-----